

महाराष्ट्र दूरसंचार परिमंडल
मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, हिंदी अनुभाग,
4 थीं मंजिल, 'ए' विंग
बी.एस.एन.एल प्रशासनिक भवन, जुहु रोड,
सांताक्रुज (प), मुंबई - 54.



भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

सेवा में

सभी व्यवसाय क्षेत्र (बीए) प्रमुख
प्रधान महाप्रबंधक/वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
दूरसंचार जिला प्रबंधक.

क्र. ए/रा.भा/7/न.रा.का.स/बैठक/पत्राचार/71

मुंबई दिनांक : 27/10/2020.

विषय : व्यवसाय क्षेत्र (बीए) से नियमित राजभाषा कार्यावयन हेतु कार्रवाई के संबंध में ।

जनवरी 2020 में बीएसएनएल में बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद संपूर्ण कार्यालयीन गतिविधियों में अभूतपूर्व बदलाव आ जाने के कारण हिंदी के कार्य में भी समुचित बदलाव आ गया है, क्योंकि हमारे अधिकांश हिंदी में कार्य करनेवाले कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं । अब नए परिवेश में नई कार्यप्रणाली को अपनाते हुए हिंदी के कार्य को जारी रखना है और हमारे लिए जो निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना है । हालांकि हमारा कार्य पहले जितना था लगभग उतना या उससे अधिक हो गया है, पर हमें अपने नेमी (रूटीन) कार्य के साथ साथ राजभाषा हिंदी के कार्य को भी अधिमान्यता देते हुए उसे निपटाना जरूरी है ।

अब हमारे कार्यप्रणाली में कतिपय बदलाव के तहत व्यवसाय क्षेत्र बनाये गए हैं । हमें इन्हीं सोलह व्यवसाय क्षेत्रों से समयबद्ध तरीके से राजभाषा हिंदी की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर अगले महीने की 15 तारीख तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए । जुलाई - सितंबर 2020 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में 10 नवंबर 2020 से पहले circle.rjbhasha@gmail.com पर अवश्य भेज दें (प्रपत्र संलग्न है) । आपके क्षेत्र (बीए) में हर


तिमाही में अनिवार्यतः एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जाए ।

उसी प्रकार एस.एस.ए स्तर पर भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए और उसके कार्यवृत्त तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपने व्यवसाय क्षेत्र (बीए) को भेजें । व्यवसाय क्षेत्र (बीए) द्वारा समेकित तिमाही रिपोर्ट परिमंडल कार्यालय को भेजी जाए ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2020-21 के वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजभाषा से संबंधित जितने भी अनिवार्य कार्य हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

संलग्न : यथोपरि ।


(कैलाश मोरे)

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन)

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

.....को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता _____

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. एस.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

- (क) जारी कागजात की कुल संख्या _____
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या _____
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात _____
- (घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात _____

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या _____
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए _____
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए _____
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे _____

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
	1	2	3
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

5. फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा *

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या _____

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या _____

टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या _____

* हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए ।

6. हिंदी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कर्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3

नोट : कार्यालय के समस्त कर्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है ।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

- (क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि
- (ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या
- (ग) तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या
- (घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ? हां/नहीं

8. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि

(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

10. उल्लिखित ऑकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम

पदनाम

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर

फैक्स नम्बर

ई-मेल का पता

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए ।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड :

वित्तीय वर्ष :

“मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है । मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा । ”

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय का नाम.....

दूरभाष/फैक्स.....

ई-मेल का पता.....

तिथि :-

स्थान :-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी ।